

#### JTEKT INDIA LIMITED

(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)

Head Office: M3M Cosmopolitan. 1st Floor, Sector-66, Ramgarh Road, (Adjacent to Golf Course Extension Road), Gurugram - 122 002, Haryana, India.

Tel: +91 124 478 3100, Fax: +91 124 478 3199.

TEKT

23rd August, 2021

The BSE Limited

Scrip Code - 520057

Department of Corporate Services Floor 1, New Trading Ring Rotunda Building. P.J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400 001.

**Listing Compliance** National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai 400 051.

Symbol - ITEKTINDIA; Series - EQ

Newspaper Public Notice - Notice of 37th Annual General Meeting of the Company and Sub: Annual Report 2020-21 and information on E-Voting.

Dear Sir.

In continuation to our letter dated 20th August, 2021, sending therewith the Annual Report 2020-21 and Notice of the aforesaid Annual General Meeting, we are enclosing herewith the copies of the Public Notice published in the newspapers - Business Standard (English)' all India Editions and 'Business Standard (Hindi)', Delhi Edition on 21st August, 2021, in this regard.

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For JTEKT INDIA LIMITED

NITIN SHARMA **COMPANY SECRETARY** 

Regd. Office: UGF-6, Indra Prakash 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001, India.

Tel: +91 11 2331 1924 / 2332 7205, Telefax: +91 11 2332 7205 CIN: L29113DL1984PLC018415, Website: www.jtekt.co.in

Works: 38/6, Delhi-Jaipur Road, NH-8, Gurugram - 122 001, Haryana, India.

Tel: +91 124 468 5000, Fax: +91 124 410 4611 / 410 4621.



Mitsu

# Rise above compulsions for 2024: Gandhi to Oppn

New Delhi, 20 August

onceding state-level political contradictions between the Congress and the rest of the Opposition were a fact of life, Congress President and United Progressive Alliance (UPA) Chairman Sonia Gandhi nevertheless emphasised the spirit of unity in the Opposition, saying if the country was to be saved, sacrifices had to be made by the Opposition.

"We all have our compulsions, but clearly, a time has come when the interests of our nation demand that we rise above them. The 75th anniversary of India's independence is the most appropriate occasion for us to reaffirm our individual and collective resolve. For its part, the Congress will not be found wanting," she told a virtual meeting of leaders from 18 Opposition parties.

The Aam Aadmi Party (AAP) was not invited. And the Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party (BSP) did not attend. Key leaders attended include National Conference's Faroog Abdullah NCP's Sharad Pawar, LJD's Sharad Yadav, and CPM's Sitaram Yechury. Mamata Banerji Bengal), M K Stalin (Tamil Nadu), Uddhav Thackeray (Maharashtra), and Hemant Soren (Jharkhand) were the chief ministers who attended. though there are several other states that are ruled by non-Congress, non-BJP parties, like Andhra Pradesh (YSR Telangana Congress).

FROM PAGE 1

**First Covid vax** 

for children...

The interim results from

Phase-3 clinical trials in over

28,000 volunteers showed pri-

mary efficacy of 66.6 per cent

for symptomatic RT-PCR pos-

vaccine trial so far in India for

Covid-19. This vaccine had

already exhibited robust immunogenicity and tolera-

bility and safety profile in the

adaptive Phase I/II clinical tri-

ls carried out earlier. Both the

Phase 1/2 and Phase 3 clinical trials have been monitored by

an independent Data Safety

Monitoring Board (DSMB)," a

statement by the Ministry of

Science and Technology said.

Zydus Group, said: "We are

extremely happy that our

efforts to put out a safe, well-

tolerated and efficacious vac-

cine to fight Covid-19 have

become a reality with ZyCoV-

D. To create the world's first

DNA vaccine at such a crucial

iuncture and despite all the

challenges, is a tribute to the

Indian research scientists and

₹400-500 crore in developing

ZvCoV-D. It includes setting

up manufacturing plants. "We

have re-purposed an existing

plant where we are now pro-

ducing, and our new plant will

be ready by the end of July. By

August, we should have the

capacity to make 10 million doses a month and by the end

of this year, we would have

made 50 million doses of

ZyCoV-D," Sharvil Patel, MD of

Zydus Cadila, had said earlier.

cine works against the Delta

variant as the trials carried out

in more than 50 clinical sites

spread across the country and

during the peak of the second

wave of Covid-19 have shown

the vaccine's efficacy against

the new mutant strains, espe-

cially the delta variant.

Typically, in a needle-free

injection system, a jet of fluid

is accelerated to high speed,

providing it significant pene-

trating power through a fine-

diameter nozzle when placed

against the skin. Clinical trials

on children above 5 years are

That was not enough to get

financially-stressed compa-

nies like Vodafone Idea out of

Tariff hike...

also on the cards.

Zydus has also said its vac-

Zydus has so far invested

their spirit of innovation."

Pankai Patel, chairman of

"This has been the largest

itive cases.



Sonia Gandhi said unity among the Opposition had forced the government to retreat and review its position on several issues

(Telangana Rashtra Samiti) Sikkim (Sikkim Krantikari Morcha).

Gandhi said unity among

the Opposition had forced the government to retreat and review its position on several issues, whether it was on Covid-19 management strategies or the state governments' right to notify reservations for Other Backward Classes (OBCs). "We had written jointly to the PM on May 12 on the vaccination strategy, on the repeal of the three antifarmer laws and on the free distribution of foodgrains. Some crucial changes were introduced in the procurement system of vaccines following our intervention. Needless to say, as always, somebody else has taken the credit. This does not matter really, as long as the people of the country have benefitted," she said.

Gandhi held the government's "obstinate" and "arrogant unwillingness" to discuss and debate issues of public importance responsible for the washout of the session monsoon

the woods, analysts pointed

Parliament. "These include the Pegasus snooping scandal that affects each and every citizen, the repeal of the three anti-farmer laws, the price

rise of essential commodities,

and the continuing assault on

federalism and the institu-

tions of our democracy," the UPA chairman said. "In spite of this, the session was marked by the determined unity that all Opposition parties demonstrated for over 20 days in both the Houses. We functioned in a coordinated manner. It was entirely due to the Opposition parties that the Constitutional Amendment Bill was passed to restore the long-standing rights of states to identify and notify OBCs, I am confident that this unity will be sustained in future sessions of Parliament as well. But the larger political battle has to be fought outside

Gandhi said the "ultimate goal" is the 2024 Lok Sabha elections. She called upon all Opposition parties to begin planning systematically "with the single-minded

it." she added.

country a government that believes in the values of the freedom movement and in the principles and provisions of our Constitution".

Mamata Baneriee called upon all leaders to fight the government "together" and "collectively". "We must forget our internal differences to take the government head on," Banerjee said, days after Sushmita Dev, a prominent Assam Congress leader, resigned from the Congress to join her party. She also raised farmer issues and talked about the "dictatorship" of the government and the "institutional torture".

The Jharkhand CM said that the nation's situation internally and externally is "not at all rosy". He called upon the entire Opposition to take up issues including the "Parliament fiasco, silencing of democracy and institutional caging".

Soren was of the view that issues centric to common people and states are not being addressed, sources

"As part of a collective framework, the Opposition including all the Oppositionruled states should immediately take up these issues especially those being faced by non-BJP run states. We have to struggle and resist all anti-people policies in a more cohesive manner. We have to sharpen our attacks on issues like income increase, inflation, unemployment, farmers issue, management,' sources quoted Soren as say-

# Eicher crisis...

While telcos have maintained that the current tariffs were disruptive and not feasible in the long run, no firm has taken the first big step to raise rates. In the last few weeks. however, Bharti Airtel and Vodafone Idea have increased tariffs in certain limited segments. For example, Airtel hiked tariffs by 50 per cent for enterprise customers in the post-paid category—a small fraction of the telco's total sub-

Also, compared to Airtel and Vodafone Idea, rival Reliance Jio has only a negligible share of the post-paid

scriber base.

In addition to the change in post-paid tariff, Airtel also pushed up the price of its minimum pre-paid tariff package from Rs 49 to Rs 79. So, about 30 million customers have to pay a little extra. Analysts have also reiterated that while the tariff increase is a good sign, it may not make any substantial material difference to the bottom line of Vodafone Idea, which is struggling to remain afloat. To achieve a major improvement, an across-theboard increase in tariffs, which happened over 19 months ago,

must be repeated. Airtel chairman Sunil Mittal said recently that average revenue per user (ARPU) in a month should hit around Rs 200 for the industry to be comfortable. A senior company executive however argued that the company would not make the first big move as its tariffs were higher than that of Reliance Jio. Such a move could reduce its market share. he said. Sources close to Jio also said they would refrain from taking the first step.

The issue on telcos offering segmented tariff offerings has been a bone of contention for a while. In 2018, Trai had sent notices to Bharti Airtel and Vodafone Idea, pulling them up for failing to comply with the tariff reporting norms (where a new tariff plan has to be communicated to the regulator). It had threatened to impose fine Subsequently, Airtel appealed and was able to get an interim relief from the telecom tribunal TDSAT.

In November 2020, the Supreme Court, where the regulator went in appeal, made it clear that Trai can ask for details on segmented tariffs for record. But it would be Trai's duty to keep the information confidential, the top court had

The only industry executive who gets a higher package than Lal is Bajaj Auto's Rajiv Bajaj, whose compensation is pegged at ₹40.6 crore. Interestingly, among these, only Bajaj and Lal are the promoters of their respective

Lal's total salary increased from ₹9.2 crore in 2016-17 to ₹21.12 crore in 2020-21, a jump of about 130 per cent. His remuneration increased by 9.97 per cent in FY21, while median employee remuneration increased by just 1 per cent. Experts indicated that the company would have to come up with a reworked proposal. "They should go back to shareholders and explain the rationale behind asking for such an increase. They should reduce the salary and if they come up with the same, they should explain transparently what is the proportion of variable, what will determine the variable component, and what are the parameters that the remuneration committee has set for itself," said Amit Tandon, founder and managing director of IiAS

There were reports that the company was working on resolving the issue by calling a board meeting as early as next week. However, the company remained tight-lipped about the date of the board meeting and whether the salary component would be re-looked at. Lal's current package includes a salary of ₹7.38 crore, commission of ₹6.7 crore, and perquisites of ₹7.04 crore. In 2018-19 and 2019-20, his remuneration increased by 26 per cent and 51 per cent. respectively. On other hand, the share of variable components in his package declined from 46 per cent in 2016-17 to

In a similar instance, in 2018, Neeraj Kanwar, vice chairman and managing director of Apollo Tyres, had to go for a 30 per cent cut in his salary after institutional and private shareholders rejected a proposal to increase his package by 42 per cent. Guenter Butschek, former managing director of Tata Motors, had also faced a similar situation during his fiveyear tenure. "There is a requirement of better communication between the management and shareholders to avoid such a situation. One should explain the rationale behind why the rise in salary is being proposed. This should be in tandem with perform-

ance and median salary of oth-

32 per cent in 2020-21.

er employees of the company," said Shriram Subramanian, managing director of proxy advisory firm InGovern.

# Brokerages...

"We are sourcing talent from fintechs and start-ups, including those from non-financial backgrounds, for our corporate office. We are also adding relationship managers on the client servicing side, where we have seen some attrition,' added Relli.

Eighty five per cent of HDFC Securities' revenues are through digital channels, up from 65 per cent pre-pandemic. In the past one year, the firm's digital team has quintu pled resources, working on making its platforms more intuitive, conversational, and self-reliant.

"We need people who can position a product digitally and craft the journey for customers, by improving user interface and user experience. These don't necessarily require domain expertise. We are trying to learn from the start-up ecosystem and upgrade our IT architecture into a Cloud-based one," said Relli. "Hiring is predominantly on the digital, tech, and product side. In the past one year, we would have hired 50-60 people on the digital and tech side. We look forward to onboarding more talent in these segments," said Jaideep Hansraj, MD and CEO, Kotak Securities.

Digitisation has blurred the geographical boundaries. It has become easier to onboard new customers, with tools such as DigiLocker and penny drop verification, said experts. Smartphones and mobile apps are now the channels of choice for consuming products and services for new-age clients in the 25-40-years age bracket. "Hyperpersonalisation.

speed, and ease of execution and social/community learning have become more important than ever before to meet the needs of these clients," said Vijay Chandok, MD and CEO, ICICI Securities, ICICI Securities has recruited 35 MBAs from premium B-School campuses and around 15 engineers from tech campuses in the current year for its tech, client experience, and digital acquisition teams. It has also inducted senior-level talent from the market in IT. information security, data sciences, customer experience, and user interface (UI)/user experience (UX).

More on business-standard.com

#### BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL. **CHENNAI BENCH**

COMPANY PETITION NO. CP (CAA)/22/2021

#### COMPANY PETITION NO. CP(CAA)/23/2021

Faery Estates Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 (as re-enacted Companies Act, 2013 Act) having its registered office at Global Infocity Partk 40, Anna Nedunchalai, Kadanchavadi, Perungudi, Chennai- 600096, Tamil Nadu, India.

Airoli ITP Development Private Limited, a company incorporated under the

Companies Act, 1956 (as re-enacted Companies Act, 2013 Act) having its registered office at Global Infocity Partk 40, Anna Nedunchalai, Kadanchavadi, Perungudi, Chennai-600096, Tamil Nadu, India.

#### NOTICE OF HEARING OF PETITION

The Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for sanctioning of the Scheme of Amalgamation of Faery Estates Private Limited (Petitione Company / Transferor Company) with Airoli ITP Development Private Limited (Respondent Company / Transferee Company) and their respective Shareholders was presented by Petitioners Companies by way of second motion on 24th day of June 2021 and pursuant to an order dated 27th day of July 2021 of Hon'ble NCLT. Chennal, it was, inter alia, required to issue notice of hearing in specified newspapers. The said Petition is fixed for hearing and final disposal there at before the Hon'ble Tribunal on 15th day of September, 2021.

Any person desiring of supporting or opposing the Petition should send to the Petitioner's Advocate at the address mentioned below, a notice of his / her intention, signed by him / her or his / her advocates, with his / her name and address, so as to reach the Petitioner's Advocates at the address set out herein below not later than two days before the date fixed for hearing of the Petition Where he/she seeks to oppose the petition, grounds of opposition or a copy of his / her affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the Petitioner's Advocate to any person requiring the same on the payment of prescribed charges for the same.

Dated 19th day of August, 2021.

N.P. Vijay Kumar/Atit Kumar Soni, Advocates Office No. 1E, Vallencia Apartments, No 57 1st Main Road, Gandhi Nagar, Adyar

**GWELD** 

#### **GEE LIMITED**

CIN: L99999MH1960PLC011879 Regd. Off.: Plot No. E -1, Road No. 7, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra-400604

Tel. No.: +91-022-25821277, Fax No.: +91-022-25828938; Website: www.geelimited.com: Email: shares@geelimited.com

#### INFORMATION REGARDING THE 60th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and General Circular No. 02/2021 dated 13th Januar 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 ssued by Ministry of Corporate Affairs, the 60th Annual General Meeting (AGM) of the nembers of GEE Limited will be held on Monday, 13th September 2021 at 12.00 Noon through video conferencing facility without any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

The Annual Report along with AGM Notice will also be available on the website of the Company www.geelimited.com and on the stock exchange website at www.bseindia.com. No hard copies of the Annual Reports will be made available to the Members.

Manner to register / update email addresses: Members who have not registered their e-mail address with the Company or their Deposito

Participant are requested to register their e-mail address in the following manner

#### For Physical Shareholders

- Send Scanned copy of the following documents by email to shares@geelimited.com a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address b. Self-attested scanned copy of the PAN Card, and
- Self-attested scanned copy of any document (such as Aadhaar card, Driving Licence, Election Identity card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

For Electronic Shareholders The shareholders holding shares in electronic mode are also requested to

register / update their email address, Permanent Account Number (PAN) and Bank Account details with the Depository Participant where their respective de accounts are maintained.

The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of the e-voting system and process of e-voting will be specified in the Notice of the AGM. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID, can access the details of e-voting system and vote on the e-voting system as per the procedure which will be mentioned in the AGM Notice This newspaper intimation will also be available on the Company's website at www.geelimited.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com

By order of the Boar

Date : 20.08.2020

Paval Agarwa Whole-Time Director & CFO DIN: 07198236



# MINDTREE LIMITED

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru - 560059, Karnataka, India. Corporate Identity Number (CIN): L72200KA1999PLC025564 Phone: + 91 80 6706 4000 | Fax: +91 80 6706 4100 E-mail: investors@mindtree.com ! Website: www.mindtree.com

# NOTICE

## Transfer of Equity Shares of the Company to the **Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules), as amended from time to time, the Company is mandated to transfer all the shares in respect of which dividends have not been claimed for seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

As per the said Rules, the First Interim Dividend declared for the financial year 2014-15, which remain unclaimed for a period of seven years along with corresponding shares in respect of which dividends have not been claimed for the past seven consecutive years are due to be credited in favor of the IEPF on November 19, 2021.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the Demat account of IEPF. The Company has also uploaded on its website www.mindtree.com under Investors Section, details of the shareholders whose shares are liable to be transferred in favor of

The Concerned shareholders are hereby requested to claim the First Interim Dividend declared for the financial year 2014-15 and onwards on or before November 18, 2021, in order to avoid their dividend amount/ shares being transferred in favor of IEPF.

Further the shareholders may please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares and dividends thereof, credited to the account of IEPF. On transfer of the dividends and the shares to IEPF, the shareholders may claim the same by making an application to IEPF in the prescribed form, as per the procedures cited in the said Rules.

In case the shareholders have any queries on the above matter, they may contact the Company's Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, Unit: Mindtree Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 400083 T-022 - 49186000 Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Place: Bengaluru

Date: August 21, 2021

For Mindtree Limited

Subhodh Shetty Company Secretary



Alliance Air Aviation Limited

(/ Whony owned capolalary of / in mala Emilion)				
NOTICE INVITING TENDER				
Tender Description	Tender for "Appointment of a Service Provider for providing web-based Aviation Software Package for Maintenance, Engineering, Logistics and allied functions of a commercial Airline duly customized to the requirements" of Alliance Air Aviation Limited (AAAL)			
Tender No. & Date	AAAL / Engg / Aviation Software Package / 270 dated: 11/08/2021			
Closing Date & Time	27 Aug 2021, 15:00 Hrs			
Date & Time of Opening of Technical Bids	27 Aug 2021, 15:15 Hrs			
Availability of Tender Documents	Tender documents is available for free download at Air India website www.airindia.in			

# MITSU CHEM PLAST LIMITED

CIN: L25111MH1988PLC048925

Regd. Office: 329, Gala Complex, 3rd Floor, Din Dayal Upadhyay Marg Mulund (W), Mumbai – 400 080. Email: investor@mitsuchem.com; Phone No: 022-2592 0055.

## NOTICE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, September 16, 2021 at 4.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2020-21 on Friday, August 20 2021 through electronic mode to the members who have registered their email addresses with the Registrar and Transfer agent ("RTA") of the Company/Depository Participant(s) ("DP") in accordance with the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April , 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021and Circulars issued by SEBI dated May 12, 2020 and January 15, 2021. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 is available on the Company's website a www.mitsuchem.com and on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com

Further, Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 ("Act") and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Begister of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed rom Friday, September 10, 2020 to Thursday, September 16, 2021 (both days inclusive)

For the purpose of determining eligibility of member's entitlement of dividend for the year ended March 31, 2021, if approved at the ensuing AGM of the Company, shall be payable to those shareholders whose names will appear on the Register of Members furnished by the RTA/ DP as at the closure of the business hours on Thursday, September 9, 2021.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is providing the e-voting facility to all its Members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM and the said Members may transact such business contained in the said Notice through voting by electronic means by electronic voting system provided by National Securities Depositor Limited ("NSDL").

The details of remote e-voting are given below:

1) The e-voting period will commence on Monday September 13, 2021 at 9:00 a.m. IST and ends on Wednesday, September 15, 2021 at 5:00 p.m. IST. Thereafter, the e-voting module will be disabled.

2) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-up capital of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, September 9, 2021. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

3) The Company is also offering the facility for e-voting during the AGM for the members attending the meeting, who have not cast their votes by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote.

4) A member can only opt for one mode of voting i.e. either through remote e-voting or e voting during the AGM. If any member casts vote by more than one mode, then voting done hrough remote e-voting shall prevail.

5) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder after the dispatch of the Annual report and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday September 9, 2021 may obtain login ID & password for e-voting by sending a request a evoting@nsdl.co.in. Members who have not undated their bank account details for receiving the dividends

directly in their bank accounts and who have not yet registered their email addresses are requested to get their details registered/updated with Bigshare Services Pvt. Ltd, Registra and Transfer Agent of the Company, on a temporary basis at https://bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 at evoting@nsdl.co.in

Date: August 20, 2021

For MITSU CHEM PLAST LIMITED CHAIRMAN AND WHOLE-TIME DIRECTOR

# **JTEKT**

# JTEKT INDIA LIMITED

(CIN - L29113DL1984PLC018415) Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001.

held on Thursday, the 16th September, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through VC/OAVI Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 37th AGM, as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular Nos. 14/2020 /2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021, respectively, and other circulars issued by the Ministry o Corporate Affairs ('MCA') and SEBI, without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue for the 37th AGM shall be Registered Office of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM a https://emeetings.kfintech.com.

The Notice of the AGM and Annual Report have been sent to all the Members whose e.mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The requirement of sending the physical copy of the Notice of 37th AGM and Annua Report to the Members has been dispensed with vide MCA Circulars and SEB Circulars. The aforesaid documents are also be available on the Company's websit and www.nseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfe Agent, KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFin Tech") at https://evoting.kfintech.com.

The Company is providing to the members, facility to exercise their right to vote or resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ('remote e-voting') The Company has engaged the services of KFin Tech as the authorized agency to provide remote e-voting facility. Members are requested to click or https://evoting.kfintech.com for casting the vote.

The facility for voting through electronic means will also be made available at the AGM ('Insta-Poll') and only those members, who are present in the AGM and have

barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM. Information and instructions including the details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e.mail. The same logging

credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM. The details of the remote e-voting are as under: Date and time of commencement of remote e-voting - 12th September, 2021

Date and time of end of remote e-voting - 15th September, 2021 (5.00 p.m.-IST) The remote e-voting shall not be allowed beyond 15th September, 202° (5.00 p.m.- IST).

the cut-off date i.e. 9th September, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or participation at AGM and voting through Insta-Poll.

A person who becomes member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the notice of AGM which s available on Company's website and KFin Tech's website.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting ma attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any guery regarding e-voting or technical assistance for VC participation Shareholders may contact KFin Tech at the toll-free No. 1-800-3094-001 or write to them at einward.ris@kfintech.com or visit the FAQs section available at KFin Tech's ebsite https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx. Members may also contact Mr. Rajeev Kumar, KFin Technologies Private Limited, at 040-6716 1524 for any

For JTEKT India Limite



एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एथर दंदिया निमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी)

निविदा आमंत्रण सूचना				
निविदा का नाम	एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से निर्मित एक वाणिज्यिक एयरलाइन के अनुरक्षण, इंजीनियरिंग, और लॉजिस्टिक संबद्ध कार्यों के पैकंज हेतु वेब आधारित एविएशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए सर्विस प्रोवाइडर की नियुवित हेतु निविदा			
निविदा संख्या एवं तिथि	एएएएल/इंजी./एविएशन सॉफ्टवेयर पैकेज/270 दिनांक 11/08/2021			
निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	27 अगस्त, 2021, 15:00 बजे			
तकनीकी बोलियां खोलने की तिथि एवं समय	27 अगस्त, 2021, 15:15 बजे			
निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता	निविदा दस्तावेज एअर इंडिया की वेबसाइट <b>www.airindia.in</b> पर निःशुल्क डाउन लोड हेतु उपलब्ध है।			

## श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 SHRIR 🍖 M मुख्य कार्यालय : लेवल-4, वोखार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कल कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : www.shriramhousing.in

#### कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएचएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

कर्जदार का नाम	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण			
श्री कृशन गोपाल	माँग सूचना की तिथि :	वार्ड सं. 2, अडीला,			
गुप्ता पुत्र श्री मोहन	17.05.2021	तहसील- कापरेन,			
लाल, श्रीमती	रु. 10,06,672/- (रुपये दस	जिला-बूंदी, राजस्थान			
सम्पत बाई पत्नी	लाख छः हजार छः सौ बहत्तर	पर स्थित सम्पत्ति का			
श्री कृशन गोपाल,	मात्र) ऋण खाता सं.	सम्पूर्ण भाग, श्री कृशन			
श्री आलोक गुप्ता	SLPHKOTA0000050 में	गोपाल गुप्ता पुत्र श्री			
पुत्र श्री कृशन	दिनांक 14/05/2021 को बकाया	मोहन लाल गुप्ता के नाम			
गोपाल, श्रीमती	तथा आगे का ब्याज एवं	पर। माप 1718.25 वर्ग			
रिमता पुत्री श्री	आकस्मिक व्यय एवं लागतें आदि	फीट, सीमाएँ : उत्तर :			
कृशन गोपाल, वार्ड	सहित।	बाबूलाल का मकान,			
सं. 2, अडीला,	सांकेतिक कब्जे की तिथिः	दक्षिणः रास्ता/गली, पूर्वः			
कापरेन, बूंदी,	17.08.2021	सड़क, पश्चिम :			
राजस्थान 323301		सत्यनारायण का मकान।			
श्री मोहन सिंह	माँग सूचना की तिथि :	सम्पत्ति ग्राम मोरवनिया			
देवड़ा पुत्र श्री राम	30.03.2021	ग्राम पंचायत वरदा,			
सिंह देवड़ा,	रु. 5,58,126/- (रुपये पाँच लाख	बड़ागाँव, तहसील-			
श्रीमती भूरी बाई	अट्ठावन हजार एक सौ छब्बीस	गिरवा, उदयपुर,			
पत्नी श्री मोहन	मात्र)	राजस्थान का सम्पूर्ण			
सिंह, ग्राम-	ऋण खाता सं.	भाग, माप 2700 वर्ग			
मोरवानिया, वरदा,	SELHUDIP0000011 में	फीट, सीमाएँ : उत्तर :			
उदयपुर,	दिनांक 27/03/2021 को बकाया	सड़क, दक्षिणः श्री माधो			
राजस्थान-	तथा आगे का ब्याज एवं	सिंह का मकान, पूर्व :			
313001	आकस्मिक व्यय एवं लागतें आदि	अप्रोच रोड, पश्चिम : श्री			
	सहित।	राम सिंह का मकान।			
	सांकेतिक कब्जे की तिथिः				
	18.08.2021				

एतद्वारा यह सुचना व्यापक रूप से जनसामान्य को चेतावनी भी है कि एसएचएफएल के अधिकर प्राधिकारी उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों के विधिक सांकेतिक कब्जेदार हैं और कर्जदार अथवा कोई भी व्यक्ति इस सूचना में सन्दर्भित उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों में किसी भी अंश को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य संव्यवहार/हस्तान्तरण द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात एसएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

स्थान : बूंदी ∕उदयपुर ह./-अधिकृत प्राधिकार्र तिथि : 19.08.2021 श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

# ITEKT

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(CIN – L29113DL1984PLC018415) कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.

फोन नंबर : 011-23311924 23327205

कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स के माध्यम 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम के आयोजन की सूचना और ई-वोटिंग के विषय में सूचना

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की उ7वीं एजीएम **बृहस्पतिवार, 16 सितंब** 2021 को पूर्वी. 11.00 बजे (आईएसटी), 37वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण औ . ।।यों के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसव अन्तर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए विनियमावली 2015 (सूचीयन विनियमावली) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए') द्वार जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 दिनांकित अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021, क्रमानुसार, तथा कापॉरेर मंत्रालय (एमसीए') और सेबी द्वारा जारी अन्य सर्कुलर्स के अनुपालन में, वीसी/ओएवीएम व माध्यम से, किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, आयोजित की जाएगी नाध्यन स, किसा एक स्थान पर सदस्या का नात्मक उपास्थात क बगर, आयाजात का जाएंग कम्पनी का पंजीकृत कार्यांकार उनमें एजीएम हेतु स्थान माना जाएंगा। सदस्यगण एजीएम https://emeetings.kfintech.com पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकेंगे |

2) एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त सदस्यों को प्रेषित की जा चकी है. जिन र्द-मेल पर्व कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(पार्टिसिपैंटस) के साथ पंजीकत हैं। सदस्यों क 37वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसी सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स द्वारा समाप्त की दी गई है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jtekt.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट नामत www.bseindia.com और www.nseinda.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. ("केफिन टेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भ

3) कम्पनी सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेत प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट डालने कम्पनी सदस्या का, एजाएम में पारित किए जान रुतु अस्तामित अस्ताम पर बाट आरान प उनके अधिकार का प्रयोग करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग की सुविधा (रिमोट (ई-बोटिंग') प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में केफिन टेक की सेवाएं अनुबंधित की हैं। सदस्यों से वोट डालने व लिए https://evoting.kfintech.com पर क्लिक करने का अनुरोध किया जाता है।

) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा ('इंस्टा-पोल') भी उपलब्ध होर्ग गा केवल वे सदस्य एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ग्राह्य होंगे, जो एजीएम में उपस्थि हैं तथा जिनके दारा रिमोर ई-वोटिंग के माध्यम से पस्तावों पर वोट नहीं डाला गया है औ किसी अन्य प्रकार से ऐसा करने हेतु प्रतिबंधित नहीं हैं।

 सूचना और अनुदेश, जिनमें ई-बोटिंग के संबंध में यूजर आईडी तथा पासवर्ड का विवरण शामिल है, सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम विवास का स्वारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम विवास का स्वारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम विवास का स्वारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम विवास का स्वारा भेजे का स्वारा भी स्वारा भाजे का स्वारा भी स्वारा भाजे का स्वारा भी स्वारा भाजे का स्व भाग लेने के लिए इन्हीं लॉगिंग क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।

 रिमोट ई-वोटिंग का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : • रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि और समय - 12 सितम्बर, 2021 (पूर्वा. 9.00

रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय - 15 सितम्बर, 2021 (अप. 5.0

15 सितम्बर, 2021 (अप. 5.00 बजे आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति

 त) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में कट—ऑं तिथि अर्थात 09 सितम्बर, 2021 को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई—वोटिंग की सुवि प्राप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने तथा इस्टा-पोल के माध्यम से वोट डालने का हकद

कट-ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह कम्पनी की वेबसाइट तथा केफिन टेक वेबसाइट पर उपलब्ध एजीएम की सूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया अपना कर यूजर आईर्ड

तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। 9) सदस्यगण, जो बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, एजीएम

उपस्थित हो सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

0) शेयरधारक, ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में अथवा वीसी प्रतिभागिता के लि किसी तकनीकी सहायता के लिए, केफिन टेक से टोल-फ्री नबर 1-800-3094-001 प सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उनको einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं अथव केफिन टेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx पर उपलब् एफएक्यू'ज सेक्शन देख सकते हैं। सदस्यगण किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए श्री राजीव कमार, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, से फोन नंबर 040-6716 1524 पर सम्पर्क क

तिथि : 20.08.2021

वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटे

सूचना

दद्वारा सचित किया जाता है कि **गर्डांगर इंडिया लिमिटेड** . **तीआईएन नं**. **L25111HR1961PLC008578** पंजीकृत कार्याल थुरा रोड, बल्लभगढ़, जिलाः फरीदाबाद (हरियाणा) के गोविंदलात **हरीलाल गांधी** के नाम पर धारित शेयर सर्टिफिकेट जिसक जेलियो नं. **1101053**, सर्टिफिकेट नं. **30535, 66345** 107840, 125690, 168241, 150479, 234588 डेस्ट. नं. 1753766-770. 2193765-772. 2782464 476, 5110176-178, 5553891-900, 7479445 14953772-811 गुम अथवा खो चुके हैं अथवा चोरी हो चुकी है तथा संबंधित कंपनी के पास उसके बंदले में डप्लीकेट सर्टिफिके जारी करने का अनुरोध दाखिल किया गया है। जनसाधारण व सूचित किया जाता है कि इस सूचना के **15 दिनों** के अंदर कंपर्न हे ऊपर उल्लेखित पंजीकृत कार्यालय में कोई भी आपत्ति प्राप्त नही होने पर संबंधित कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने फ विचार करेगी, इसके उपरांत कंपनी द्वाार किसी भी दावे पर विचा नहीं किया जाएगा।

हाईपैड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में परिसमापक का पताः 83, नेशनल मीडिया सेंटर, एम्बिएंस मॉल के निकट, शंकर चौक, गुड़गाँव- 122002, परिसमापक की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः +91-9074683230, 0124 4240887 (अमन गुप्ता), ई-मेल आईडीः cirp.hipadtechnology@gmail.com

## ई-नीलामी बिक्री सूचना

दिवालिया तथा ऋण अशोधन संहिता 2016 तथा उसके अधीन विनियमनों के अधीन परिसमापक द्वारा कंपनी के मोबाइल निर्माण के लिए एसएमटी लाइन, संबंधित मशीनरियों कार्यालय उपकरणों तथा औद्योगिक रही सामग्रियों की बिकी के लिए जन साधारण से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट http://www.eauctions.co.in/ के जरिए सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी संचालित की जाएगी।

	सम्पत्ति का	निरीक्षण	नीलामी	आरक्षित मूल्य	ईएमडी (वापसयोग्य)		
सं.	विवरण	की तिथि	की तिथि की तिथि		रकम एवं दस्तावेज		
			एवं समय	रु.	जमा करने की		
				(मीलियन	अंतिम तिथि रु.		
				में)	(मीलियन में)		
1	डी-7 एवं डी-8,	04/09/	09/09/	231.37	23.14		
	साइट-5, सूजरपुर	2021 से	2021 को		7 सितम्बर		
	कसना, ग्रेटर नोएडा	06/09/	पूर्वा. 11.30		2021 को		
	-उ.प्र. में स्थित	2021 तक	बजे से दोप.		अप. 5.00		
	कंपनी के मोबाइल	(पूर्वा. 11.00	12.30 बजे		बजे से पहले		
	निर्माण के लिए	बजे से अप.	तक (प्रत्येक		दिया जाना		
	एसएमटी लाइन	5.00 बजे	5 मिनट के		चाहिए		
	संबंधित मशीनरी	तक)	असीमित				
	तथा कार्यालय		विस्तार के				
	उपकरण		साथ)				
2	औद्योगिक प्लॉट	04/09/	09/09/	1.00	0.10		
	नं. 154-बी,	2021 से	2021 को		7 सितम्बर		
	ब्लॉक-ए, सेक्टर-	06/09/	पूर्वा. 11.30		2021 को		
	63, नोएडा,	2021 तक	बजे से दोप.		अप. 5.00		
	उ.प्र. में स्थित	(पूर्वा. 11.00	12.30 बजे		बजे से पहले		
	औद्योगिक रद्दी	बजे से अप.	तक (प्रत्येक		दिया जाना		
	सामग्रियां	5.00 बजे	5 मिनट के		चाहिए		
		तक)	असीमित				
			विस्तार के				
			साथ)				

1 सम्पत्तियों की बिक्री "जैसे है जहां है". "जैसे है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" तथा "बिना किसी दायित्व" के आधार पर की जाएगी।

2. बोली मुहरबंद लिफाफे में जमा करनी होगी जिसमें निविदा दस्तावेज में प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित रकम के साथ ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी/टीटी का विवरण सम्मिलित होना चाहिए. जिसे परिसमापक के कार्यालय में ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के अनुसार पहुंच जाना चाहिए।

3. इच्छुक बोलीदाताओं को **हाईपैड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के जरिए ईएमडी (वापसयोग्य) की रकम 7 सितम्बर, 2021 को अपराहन 5.00 बजे अथवा उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। आरटीजीएस/ एनईएफटी/टीटी हाईपैड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के बैंक खाते में 7 सितम्बर, 2021 को अपराहन 5.00 बजे अथवा उससे पहले किया जाना चाहिए, कोटक महिन्द्रा बैंक, हर्ष मॉल, अल्फा-1, कमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा-201308 में खाता नं.: 9746046648, आईएफएससी कोड: केकेबीके0005028, स्वीफ्ट कोडः केकेबीकेआईएनबीबीसीपीसी। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें सम्मिलित ई-नीलामी निविदा प्रक्रिया दस्तावेज http://www.eauctions.co.in तथा www.sunresolution.in पर उपलब्ध होंगे। ई-नीलामी से संबंधित किसी र्भ तरह के प्रश्न के लिए श्री दीक्षित प्रजापित (मोबाइलः 7874138237) से ईमेलः admin@eauction.co.in के जरिए सम्पर्क करें अथवा परिसमापक के पास cirp.hipadtechnology@gmail.com पर ईमेल करें।

बोलीदातागण आरक्षित मूल्य से कम रकम की बोली नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा बोलीदातागण अपनी बोलियां न्यूनतम बोली वृद्धि रकम लॉट 1 के लिए रु 1.00 मीलिनयम तथा लॉट 2 के लिए रु. 50,000 के जिए वृद्धि कर सकते हैं।

. टिप्पणी : परिसमापक के पास किसी भी समय ई-नीलामी को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा विस्तारित अथवा किसी भी नियम एवं शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। उनके पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को रद्द करने का भी अधिकार है।

#### हस्ता/ अजित कमार

यूको बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

सम्मान आपके विश्वास का

तारीख: 20-08-2021 स्थानः गुरुग्राम

ले लिया है।

ले लिया है।

को चुकाए जाने के अधीन किया हुआ रहेगा।

बेसमेंट के साथ हाई माले की बिल्हिंग है।

अधीन किया हुआ रहेगा।

बेसमेंट के साथ ढाई माले की बिल्डिंग है।

तिथि:17.08.2021, स्थान : दिल्ली

यूको बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

सम्मान आपके विश्वास का

हाईपैड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) का आईपी पंजीयन सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00062 2017-18/10548

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अधीन]

जबकि **यको बैंक, मायापरी शाखा, नई दिल्ली**-110064 के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन औ प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की अधिनियम सं. 54) के अधीन एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित

धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, ऋणियों **मेसर्स भंसाली उद्योग प्रा. लि. जिनका पंजीकृत कार्यालय जी बी**–17**, शिवाजी एन्क्लेव, नई दिल्ली**– 110027, निदेशकगण श्री बलवंत सिंह जैन एवं श्री दीपक जैन निवास जी बी-17, शिवाजी एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110027 गारंटर:-श्री विकास जैन निवास एम-92, साउथ सिटी 1, गुड़गाँव-122001 में स्थित है, दिनांक 01.06.2021 को एक मांग सूचना पत्र जारी किया गया जिसके तहत उक्त सूचना के प्राप्त होने

की तिथि से 60 दिनों के अंदर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार सूचना में विर्णत राशि रु.62,54,425/- (रुपये बासठ लाख चौवन हजार चार सौ पच्चीस मात्र) वे

कणी दारा धनराशि न चकाए जाने पर, एतददारा कणी/गारंस एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 एवं

के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनसरण में नीचे वर्णित संपत्ति को वर्ष दो हजार इक्कीस के 17 अगस्त को कड़ने में

विशेष रूप से ऋणी/गारंटर एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा उक्त सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार रु.62,54,425/- (रुपये बासठ लाख चौवन हजार चार सौ

पचीस मात्र) के साथ दिनांक 01.12.2020 से प्रभावी इस पर भावी ब्याज एवं प्रासंगिक प्रभार **यको बैंक. मायापरी गारवा. नई दिल्ली**-110064 को चकाए जाने के

अचल संपत्ति का विवरण (i) आवासीय संपत्ति का उचित बंधक, जिसका हाउस नं. है जी बी-17, शिवाजी एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110027 मापक क्षेत्र 415 वर्गयाई। यह संपत्ति

翰

शाखा कार्यालयः 3 कम्यूनिटी सेंटर, मायापुरी, नई दिल्ली-110064

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अधीन]

जबिक **यूको बैंक, मायापुरी शाखा, नई दिल्ली**-110064 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और

प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की अधिनियम सं. 54) के अधीन एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पिठत

धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, ऋणियों मेसर्स भंसाली केबल्स एण्ड कड़क्टर्स प्रा. लि. जिनका पंजीकृत कार्यालय बी-816, रीको इंडस्टियल

एरिया, फेज-।।, भिवाडी, जिला-अलवर, राजस्थान, निदेशकगण श्री बलवंत सिंह जैन एवं श्री दीपक जैन निवास जी बी-17, शिवाजी एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई

दिल्ली-110027 में स्थित है. दिनांक 01.06.2021 को एक मांग सुचना पत्र जारी किया गया जिसके तहत उक्त सुचना के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर

दिनांक 31.05.2021 के अनुसार सूचना में वर्णित राशि रु.21,75,54,782/- (रुपये इक्कीस करोड़ पचहत्तर लाख चौवन हजार सात सौ बयासी मात्र) के साथ दिनांक

ऋणी द्वारा धनराशि न चकाए जाने पर, एतददारा ऋणी/गारंटर एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 एवं

के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनसरण में नीचे वर्णित संपत्ति को वर्ष **दो हजार डक्कीस** के 17 अगस्त को कब्जे में

विशेष रूप से ऋणी/गारंटर एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतदृद्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी

प्रकार का सौदा उक्त सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार रु.21,75,54,782/- (रुपये इक्कीस करोड़ पचहत्तर लाख

चौवन हजार सात सौ बयासी मात्र) के साथ दिनांक 01.12.2020 से प्रभावी इस पर भावी ब्याज एवं प्रासंगिक प्रभार युको बैंक, मायापुरी शाखा, नई दिल्ली-110064

अचल संपत्ति का विवरण

(ii) फैक्टरी लैण्ड एवं बिल्डिंग का उचित बंधक, बी-816, रीको इंडस्टियल एरिया, फेज-2, भिवाडी, जिला-अलवर, राजस्थान 301019 मापक क्षेत्र 6000 वर्ग मी

आईबीबीआई का पंजीकृत पताः 1ए, संस्कृत अपार्टमेंट, जीएच-22 सेक्टर-56 गुरुग्राम-122011

पंजीकृत ई-मेलः cmaajitjha@gmail.com

साथ दिनांक 01.12.2020 से प्रभावी इस पर भावी ब्याज एवं प्रासंगिक प्रभार का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

सीमाएँ: उत्तर-80 फीट सड़क, दक्षिण: अन्य संपत्ति, पूर्व-30 फीट सड़क, पश्चिम-अन्य संपत्ति

01.12.2020 से प्रभावी इस पर भावी ब्याज एवं प्रासंगिक प्रभार का भगतान करने के लिए कहा गया था।

सीमाएँ: उत्तर-80 फीट सड़क, दक्षिण: अन्य संपत्ति, पूर्व-30 फीट सड़क, पश्चिम-अन्य संपत्ति

## आशियाना इस्पात लिमिटेड

सीआईएनः L27107RJ1992PLC006611 पंजीकृत कार्यालयः ए—1116, फेस—III, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी—301019, जिला अलवर, राजस्था ई—मेलः ashianagroup@yahoo.co.in, वेबसाइटः www.

## आशियाना इस्पात लिमिटेड

#### के शेयरधारकों को नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र न 14 / 2020 दिनांकित ८ अप्रैल. 2020. सामान्य परिपत्र नं. 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 और सामान्य परिपत्र नं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020, परिपत्र दिनांकित 13 जनवरी, 2021 द्वारा आगे विस्तारित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में यथानिहित व्यवसाय के निष्पादन हेत् आशियाना इस्पात लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की उनतीसवीं (29वीं) वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम' या 'सभा') गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 समय पूर्वा. 11.00 (भा.मा.स.) को केवल विडियो कान्फ्रेंसिंग ('वीसी') सविधा / अन्य ऑडियो विजअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से व्यवसाय जो कंपनी की आगामी एजीएम के नोटिस (29वीं एजीएम नोटिस) में दिए जायेंगे, के निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी।

कंपनी एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना इलैक्ट्रोनिक रूप में उन सभी सदस्यों को भेजेगी जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टों और या कंपनी के रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट के पास पंजीकत होंगे। सदस्य जो इक्विटी शेयरों के भौतिक रूप में धारक होंगे और जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए होंगे वे अपने ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए में दर्ज पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्य जो वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से उपस्थित होंगे. वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम उद्देश्य के लिए गिने जायेंगे। एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.ashianaispat.in पर उपलब्ध किया जायेगा।

मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण के साथ ईमेल आईडी एक ही बार में पंजीकरण की सुविधा शेयरधारकों को उपलब्ध होगी। शेयरधारकों को अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकरण के लिए यह सुविधा लेने हेतु निम्नलिखित लिंक पर

## यहाँ क्लिक करें: https://linkintime.co.in/emailreg/email\_register.html

भविष्य में लाभांश सीधे शेयरधारक के खातों में जमा करने के लिए यह कंपनी को

कंपनी एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर मतदान के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान अर्थात रिमोट ई-मतदान सुविधा और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली एजीएम में मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। वीसी/ओएवीएम माध्यम से सभा में भाग लेने या रिमोट ई-मतदान द्वारा मतदान करने या एजीएम में ई-मतदान करने के विस्तृत दिशा-निर्देश एजीएम नोटिस में प्रदान किए जायेंगे। सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएम नोटिस में दिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

बुक क्लोजरः यह भी नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और इसके तहत बने नियमों के अनुसरण में कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 29वीं वार्षिक साधारण सभा के उददेश्य हेतू शूक्रवार, 17 सितंबर, 2021 से गुरुवार 23 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार हारून राशिद अंसारी कंपनी सचिव स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 20.08.2021 एम. सं.: ए11147



**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** सीआईएन: L74899DL1964G01004281 पंजीकृत कार्यालय: 'बीएचईएल हाउस'' सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 फोनः 011-66337000, फैक्सः 011-66337428 वेबसाइट: www.bhel.com, ईमेल: shareholderquery@bhel.in

57वीं वार्षिक आम बैठक सम्बंधित सूचनाएं

कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) \_\_\_\_\_\_ न्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (वीसी) के माध्यम से गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को सुबह 10 बजे (IST), एजीएम बुलाने के नोटिस में दिये गये कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। यह एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013, उसके साथ बनाए गए नियमों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम २०१५ के लाग प्रावधानों एवं कारपोरेत . कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नं. 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र नं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र नं. 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र नं, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और सेवी के परिपत्र नं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र नं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्रों" के रूप में संदर्भित), के अनुपालन में आयोजित की जा रही है। शेयरधारक https://www.evoting.nsdl.com वेबसाइट पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 103 के तहत

कोरम के उद्देश्य के लिए माना जाएगा। प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस और 2020—21 के वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया जायेगा जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक रक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) और ई—वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

#### ईमेल पते का पंजीकरण करने / अद्यतन करने की विधिः

- (i) फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण करने / अद्यतन करने के लिए ईमेल अनुरोध shareholderquery@bhel.in को या कंपनी के रिजस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को rta@alankit.com पर भेजें जिसमें प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गर्ड प्रति (जिसमें ईमेल पता एवं मोबाईल नं. का उल्लेखन हो), पैन कार्ड की स्वयं–साक्ष्यांकित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न हो।
- (ii) डिमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण / अद्यतन अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास करें।
- ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधिः (i) शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग **(ई—वोटिंग)** के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित
- कार्य पर अपना वोट डालने का अवसर होगा। (ii) डीमैटरियलाइज्ड मोड और फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा शेयरधारक
- जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका (रिमोट ई—वोटिंग) एजीएम के नोटिस में सूचित किए गए हैं। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी लपलका होगा।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। रजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है वे एजीएम में इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली से वोट डाल पायेंगे।

(iv) ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल के माध्यम से शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारक जिन्हें ईमेल प्राप्त नहीं होती है या जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन कर लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन्न कर सकते हैं।

(v) वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया

ा पानिता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस के सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से वोट डालने के निर्देश ध्यान से पढ़ें।

कृते भारत हेवी हलेक्टिकल्स लिमिटेड हस्ताक्षर / -

आरक्षित ईएमडी

(राजीव कालंडा) दिनांकः अगस्त 20, 2021



MUTHOOT SYNERGY NIDHI LIMITED (Formerly Muthoot Synergy Fund Limited) Registered Office: 205, Aurobindo Place, Hauz Khas New Delhi - 110016. CIN: U65991DL1994PLC148251

## NOTICE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the members of Muthoot Synergy Nidhi Limited (Formerly Muthoot Synergy Fund Limited) will be held on Wednesday the 15th of September 2021 at 10.00 AM at the registered office of the Company at 205. Aurobindo Place, Hauz Khas, New Delhi 110016 to transact the business contained in the Notice convening the Annual

General Meeting. Annual Report for the financial year 2020-21 containing the Notice calling the Annual General Meeting, Directors Report Auditors Report and Financial statements for the period ended 31st March 2021 is being displayed on the notice board at the Company's registered office. A member entitled to attend, and vote is

entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself For and on behalf of the Board

New Delhi - 110016 Date: 17th August 2020 Director

UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

**Honours Your Trust** 

UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

**Honours Your Trust** 

# **RELIANCE**

#### रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. कॉर्पोरेट कार्यालय : रिलायंस सेंटर, 6ठी मंजिल, नॉर्थ विंग, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज (ईस्ट),

प्रतिभत आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना

[नियम 8(6) के साथ पठित नियम 6(2) देखें]

मुम्बई-400 055

प्रतिभुत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबंधक निम्नलिखि अचल/चल सम्पत्तियों, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया। कि, रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दिनांक 29.03.2019 को एसाइनमेंट अनुबन्ध के माध्यम से अपने अधिकारों, स्वामित्व तथा ब्याज एट

निहित प्रतिभृतियों सहित आपके ऋण खाते की वित्तीय आस्तियों/कर्जों को आरएआरसी 059 (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आरएआरसी) के पक्ष में एसाइन कर दिया है। कथित एसाइनमेंट के कारण, हम सम्पूर्ण अनुबन्धित बकायों की वसूली के लिए कानून तौर पर पात्र एवं आपके प्रतिभृत लेनदार हो गये हैं। अतः रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रवशन कम्पनी लि. के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत प्राधिकारी आपको 30 दिन की सूचना देते हैं कि नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्तियाँ धार

13(2) के तहत माँग सूचना में उल्लिखित राशि एवं भावी ब्याज तथा लागत जो आरएआरसी 059 (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आरएआरसी) के पक्ष में बकाया बकाया है, की उल्लिखित जमानतियों/बंधककर्ताओं से वसूली के लिए 21.09.2021 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निम्नलिखित है :

बंधक सम्पत्ति का विवरण कर्जदार का नाम, सम्पत्ति का विवरण, मांग सूचना तथा कब्जा करने की तिथि

II	枕	and the state of t	मूल्य	47.131
	1.	श्री करन थापा पुत्र बाबू लाल थापा एवं श्रीमती मेहर जायरवा पत्नी करन थापा दोनों निवासी : म.नं. 1182, एसएफ अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, दिल्ली–110003 सम्पत्ति : प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल ग्राम मटियाला जैन कॉलोनी, पार्ट-क', उत्तम नगर, दिल्ली माँग सूचना : रु. 17,81,129.29/- (रुपये सत्रह लाख इक्यासी हजार एक सी उनतीस एवं उनतीस मात्र) 07.01.2017 तक तथा भावी ब्याज एवं लागतें, कब्जा करने की तिथि : 12.09.2017	₹. 12,55,500/-	रु. 1,25,550/-
	2.	श्री राजेश कुमार गोयल एवं रजनी गोयल, दोनों निवासी सम्पत्ति सं. ए-41-42, ग्राम हस्तसाल, ए ब्लॉक, मोहन गार्डन (शक्ति विहार), उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 मॉंग सूचना : रु. 26,36,975.02/- (रुपये छब्बीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ पिचहत्तर एवं दो पैसे मात्र) 12.09.2018 तक तथा भावी ब्याज एवं लागतें, कब्जा करने की तिथि : 16.03.2019	₹. 24,30,000/-	रु. 2,43,000/−
	3.	श्री शैलेश कुमार पुत्र राम भरन एवं मुनारजी देवी पत्नी राम भरन दोनों निवासी: म.नं. ई-598, एस.जी.एम. नगर, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, साथ ही : अराजी खतौनी नं. 495, मुस्तिकल नं. 92, किला नं. 10 (8-0), वाका मीजा बडखल, तहसील एवं जिला-फरीदाबाद, हरियाणा, साथ ही : आर.एस. डिजाइनर ग्लास, जी-517, मेन बडखल रोड, सामने सरकारी ऐट्रोल एम्प, एसजीएम नगर, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 सम्पत्ति : अराजी खतौनी नं. 495, मुस्तिकल नं. 92, किला नं. 10 (8-0), वाका मीजा बडखल, तहसील एवं जिला-फरीदाबाद, हरियाणा (माप क्षेत्रफल 100 वर्ग गज) माँग सूचना : रु. 15,77,208.74/- (रुपये पन्द्रह लाख सतहत्तर हजार दो सौ आठ एवं चौहत्तर पैसे मात्र) 21.11.2016 तक तथा भावी ब्याज एवं लागतें, कहजा करने की तिथि : 01.12.2020	रु. 21,07,000/−	रु. 2,10,700/-
	4.	श्री सुरेन्द्र भगवान पुत्र भगवान दास एवं हेमलता सुरेन्द्र पत्नी सुरेन्द्र भगवान दोनों निवासी: म.नं. 21, गाजीपुर, ग्राम-फरीदाबाद, हरियाणा, साथ ही : निवासी मकान नं. 155/134, प्लॉट नं. 35, खसरा नं. 19/10, मीजा नंगला एन्कलेव, फरीदाबाद, हरियाणा सम्पत्ति : प्लॉट सं. 35, खसरा नं. 19/10, माप 50 वर्ग फीट, ग्राम नंगला गुजरान, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित। माँग सुचना : रु. 10,62,031.34/- (रुपये दस लाख बासट हजार इकतीस एवं चौतीस पैसे मात्र) 07.01.2017 तक तथा भावी ब्याज एवं लागते, कब्जा करने की तिथि : 24.12.2020	₹. 8,68,050/−	रु. 86,805/-
	5.	श्री संजय कुमार एवं श्रीमती संजय कुमार एवं श्रीमती शालिनी रावत सभी निवासी एम-46, सैनिक नगर, उत्तम नगर, दिल्ली (निकट नबादा मेट्रो स्टेशन), दिल्ली-110059, साथ ही : कार्गो टर्मिनल पब्लिक एमर्टाइज बिल्डिंग, प्रथम तल, ब्रिटिश एयरवेज वर्ल्ड कार्गो, दिल्ली-110037, साथ ही : प्लॉट नं. बी- 2/75-ए, खसरा नं. 11 /21 /2 (लेवल-3) ग्राम मिटयाला, सेवक पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली, <b>माँग सूचना</b> : रु. 16,18,275.93/- (रुपये सोलह लाख अट्टारह हजार दो सी पिचहत्तर एवं तिरानचे पैसे मात्र) 17.12.2018 तक तथा थावी ब्याज एवं लागतें, <b>कब्जा करने की</b> तिथि : 17.12.2020	₹. 13,89,240/-	₹. 1,38,924/-
	6.	श्री अमित कुमार पुत्र राजिन्दर कुमार तथा पुष्पा सुबराई पत्नी राजिन्दर कुमार, दोनों निवासी: 3/38 गीता कॉलोनी, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110031, साथ ही: फ्लैट नं. जी.एफ1, भूतल, प्लॉट सं. सी-5/10 आवासीय कॉलोनी, डीएलएफ अंकुर विहार, हदबस्त ग्राम, सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश सम्पत्ति: फ्लैट सं. जी.एफ1, भूतल पर, छत के अधिकार रहित, प्लॉट सं. सी-5/10 पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी, डीएलएफ अंकुर विहार, हदबस्त ग्राम, सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश (माप लगभग 90 वर्ग गज (75.24 वर्ग मीटर) माँग सुचना: रु. 16,91,701.99/- (रुपये सोलह लाख इक्यानचे हजार सात सौ एक एवं निन्यानचे पैसे मात्र) 20.12.2017 तक तथा भावी ब्याज एवं लागतें, कब्जा करने की तिथि: 09.10.2020	₹. 19,15,200/-	रु. 1,91,520/-
	7.	श्री सचिन गुप्ता, किनिका लिखवानी, कुसुम गुप्ता एवं राजीव गुप्ता सभी निवासी : बी-1/10, प्रथम तल, संजय एन्कलेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 सम्पत्ति : सम्पत्ति सं. 10 तथा 10-ए, खसरा नं. 307, फ्लैट नं. बी-1/10, प्रथम तल, ब्लॉक-बी, संजय एन्कलेव, ग्राम बिन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 (माप लगभग 100 वर्ग गज) माँग सूचना : रु. 26,03,898.01/- (रुपये छब्बीस लाख तीन हजार आठ सौ अट्डानवे एवं एक पैसे मात्र) 17.11.2017 तक तथा भावी ब्याज एवं लागतें, कब्जा करने की तिथि : 24.12.2018	₹. 22,72,500/-	रु. 2,27,250/-
H	सम	पति का निरीक्षण : 15/09/2021 को 11.00 बजे पर्वा. से 02.00 बजे अप.		

## (ii) फैक्टरी लैण्ड एवं बिल्डिंग का उचित बंधक, बी-816, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, भिवाडी, जिला-अलवर, राजस्थान 301019 मापक क्षेत्र 6000 वर्ग मी प्राधिकत अधिकारी, यको बैंक

होगा तथा मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल) से यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।

ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net/arc@auctiontiger.net/ या Support@auctiontiger.net ( मोबाइल 9265562821 -9265562818 (का.) 079-6813 6837/80) से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

कृपया ध्यान रहे कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरक्षित मुख्य से नीचे एवं/अथवा ईएमुडी के बिना बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता रु. 5000/- पति लॉट के गणक में अपनी बोली राश में सधार कर सकते हैं

को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली/ बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। यदि सफल बोलीदाता उक्त रूप में बोली राशि का भगतान नहीं करते हैं. ईएमडी सहित सभी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के बाद बिना किसी ब्याज के सात दिनों के भीतर वापस लौटा दी जाएगी।

के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

निलंबित/ रद्द करने अथवा बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। . संपत्ति पर चार्ज/अधिभारों के संदर्भ में बोलीदाता स्वयं गोपनीय तरीके से जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पर्व संपत्ति के टाईटल. विस्तार अथवा गणवत्ता वे

13 उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में इस सचना की तिथि तक सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। 14. स्टाम्प ड्यटी/ पंजीकरण शल्क सहित संपत्ति की बिकी पर किसी एरिअर्स. बकाए. करों. वैट. टीडीएस. जीएसटी. चार्जेज, सांविधिक या अन्य का वहन केवल केता के

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के तहत 15 दिवसीय विधिक सूचना

थान : दिल्ली. तिथि : 20.08.2021 अधिकत प्राधिकारी. रिलायंस एसेट रीकंस्टक्शन कं. लिमिटेड

समय बकाया देयताएं निर्धारित करने के लिए परिगणित की जाएंगी।

15/09/2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 02.00 बजे अप संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 20/09/2021 को 3.00 बजे अप. तक **ई**-नीलामी की तिथि : 21/09/2021 को 10.00 बजे पूर्वा. से 12.00 दोपहर तक 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार सहित सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं की जाएगी तथा बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में आरएआरसी की पुष्टि के अधीन होगी। ई-नीलामी मै. ई-पॉक्योमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल) द्वारा ऑनलाइन आयोजित होगी। ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता के पास ई-मेल आईडी हो तथा उन्हें पोर्टल https://reliancearc.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत करान

संभावित बोलीदाता मैं, ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि.. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद िसम्पर्क व्यक्ति श्री राम प्रसाद, मोबाइल +91 79-68136803

धरोहर राशि (ईएमडी) का भगतान चाल खाता सं, 6742557088, बैंक का नामः **डांण्डयन बैंक** शाखा : शांताक्रज. वेस्ट ब्रांच मम्बई. 400054 लाभभोगी का नाम आरएआरसी 059 ट्रस्ट (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट, आईएफएससी कोडः IDIB000S010 में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा।

सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के तत्काल बाद 25% बोली राशि/बिक्री मूल्य (धरोहर राशि सहित) का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदात

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण उनकी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास तथा रेकार्ड्स में सही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी गलती, गलत विवरण या त्रुटियों आदि

अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने या बिक्री को स्थिग

विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। ऑन लाइन बोली जमा कर देने के बाद संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों तथा किसी अन्य मामले आदि के लिए किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किए जाएंगे।

केसी अन्य सुचना के लिए श्री विपिन मीना : 9136957682 तथा श्री पवन कुमार गौड़ : 9953815894 से सम्पर्क किया जा सकता है।

(i) आवासीय संपत्ति का उचित बंधक, जिसका हाउस नं. है जी बी-17, शिवाजी एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110027 मापक क्षेत्र 415 वर्गयाडी यह संपत्ति तद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदारों/जमानतियों को अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित ई-नीलामी के पूर्व उपर्युक्त सम्पूर्ण राशि अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता हैं नसमें असफल रहने पर उपर्यक्त बंधक सम्पनी की ई-नीलामी की जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज/लागत सहित वसल किया जायेगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना के निर्गमन के पश्चात अदा की गयी राशि, यदि कोई हो, वसूली/समायोजन

तिथि:17.08.2021, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

## नितिन श कम्पनी सेक्रेटर्र